

डा0 महाराजा कृष्णा कपूर आर्य मॉडल स्कूल
मॉडल टाउन, पानीपत
विषय-हिन्दी
मोक टेस्ट
कक्षा - दूसरी

निर्धारित समय – 2 घंटे 30 मिनट

अधिकतम अंक

नाम

रोल न0

प्रश्न 1 निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(5)

गाँधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। लोग उन्हें बापू भी बोलते हैं। गाँधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गाँधी था। घर में उन्हें मोहन कहकर पुकारा जाता था। बचपन में गाँधी जी को अँधेरे से बहुत डर लगता था।

1. गाँधी जी का पूरा नाम क्या था ?
2. लोग उन्हें क्या कहकर पुकारते थे ?
3. बचपन में गाँधी जी को किससे डर लगता था ?

वाक्य बनाओ -- बापू, बचपन

प्रश्न 2 निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। (5)

चिड़िया आई, चिड़िया आई, चूं चूं करती चिड़िया आई।

फुदक फुदककर कभी ना थकती, बच्चों को उड़ना सिखलाती।

मीठे मीठे गान सुनाती, सब बच्चों के मन को भाती।

1. चिड़िया कैसे चलती है ?
2. चिड़िया किसे अपना गान सुनती है ?
3. चिड़िया कहाँ रहती है ?

वाक्य बनाओ_ चिड़िया, गान

खंड (ख)

प्रश्न 3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। (10)

1. नेवले कहाँ रहते थे ?
2. ईद का त्यौहार हमें क्या संदेश देता है ?
3. बाघ का रंग रूप कैसा होता है ?
4. गीदड़ ने बकरी के साथ क्या किया ?
5. पंडित नेहरू की पुत्री का क्या नाम था ?

प्रश्न 4. खाली स्थान भरिये। (5)

[अनसुनी , विशाल , यश , उल्लास , आकार]

1. उनका..... चारों तरफ फैलने लगा ।
2. राजा बलि ने एक.....यज्ञ का आयोजन किया ।
3. चंद्रमा.....में हमारी धरती से छोटा है ।
4. गीदड़ ने बकरी की बात..... कर दी ।
5. त्योहार मनुष्य के जीवन में.....भर देते हैं ।

प्रश्न 5 शब्दों के अर्थ लिख कर वाक्य बनाइए। (5)

भाती , प्रयास , धरती , विशाल, रक्षा

प्रश्न 6 कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। (5)

.....के जलने से सीखो
अन्धकार को
लता औरसे
.....गले लगाना

प्रश्न 7 सर्वनाम किसे कहते हैं ? उदाहरण सहित लिखिए । (5)

प्रश्न 8 अंकों को शब्दों में लिखिए । (5)

5 , 7 , 11 , 15 , 18

प्रश्न 9 लिंग बदलो । (5)

राजा , चूहा , भाई , मोर , मामा

प्रश्न 10 निम्नलिखित में से किसी एक पर अनुच्छेद लिखिए । (5)

मोर या आम

प्रश्न 11 चित्र को देखकर पाँच वाक्य बनाइए ।

